



केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट, प्रयागराज (द्वितीय पाली)

साझा न्यूनतम कार्यक्रम समाचार पत्रिका – २०२३-२४

KENDRIYA VIDYALAYA NEW CANTT. PRAYAGRAJ (2SH)

COMMON MINIMUM PROGRAMME NEWSLETTER -2023-24



# INDRADHANUSH

## OUR PATRONS



DR. AJAY KUMAR MISHRA  
D.C, KVSRO, VARANASI



SHRI DINESH CHAND MEENA  
A.C, KVSRO, VARANASI



DR. SHALINI DIKSHIT  
A.C, KVSRO, VARANASI



### प्राचार्या की कलम से

जिस तरह सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से पानी की छोटी छोटी बूँदें पारदर्शी प्रिज्म का काम करती हैं और सूर्य का प्रकाश उनसे गुजरते हुए सात अलग अलग रंगों में बिखर कर इन्द्रधनुष बन जाता है ठीक उसी प्रकार हमारे प्राथमिक विभाग के नन्हे बच्चे अपने शिक्षकों द्वारा शिक्षण गतिविधियों में सह भागिता कर खेल खेल में ज्ञान को आत्मसात करते हुए शिक्षा के विभिन्न आयामों में रूचि बनाये रखने में सक्षम होते जाते हैं. प्राथमिक विभाग की विभिन्न शिक्षण गतिविधियों को दर्शाती हुयी यह समाचार पत्रिका "इन्द्रधनुष" के लिए मैं मुख्याध्यापिका सहित सभी प्राथमिक विभाग के शिक्षकों को बधाई देती हूँ.

श्रीमती सुचित्रा, प्राचार्या

### FAREWELL FROM K.V NEW CANTT. (2SH) -2023

"BE WELL, DO GOOD WORK AND KEEP IN TOUCH."


SH. D. N YADAV, PRT  
SUPERANNUATION ON 30<sup>th</sup>.  
JUNE 2023

SH. P.K BHATTACHARYA, PRT TO  
K.V BHU VARANASI  
SH. SITA RAM, PRT TO K.V  
MUGHALSARAI  
SH. JEEVAN LAL, PRT TO K.V  
AMETHI

WELCOME TO K.V NEW CANTT  
(2SH)- 2023

"YOU'RE AS WELCOME AS THE  
FLOWERS IN MAY"

SH. DINESH SINGH, PRT, FROM  
K.V IFCO PHULPUR  
SH. JIYA LAL, PRT, FROM K.V IIM  
, LUCKNOW



### MESSAGE FROM THE HEADMISTRESS

INDRADHANUSH, the CMP Newsletter is the mirror of different learning activities performed by the students in different ways like visual, auditory, read/write, and kinesthetic during VIDYAPRAVESH as well as in daily routine.. As per NIPUN-FLN and NEP 2020, these learning activities help children develop a longer attention span, helping them to assimilate knowledge and improve their long term memory. Children will enhance their fine motor skills and develop a sense of dedication to finishing tasks during FUN DAY Activities.

I am thankful to all teachers to execute and children to participate in joyful interactive learning activities.

I am thankful to Madam Suchitra, Principal, K V New Cantt. Prayagraj (2SH) for her motivation and guidance in preparing INDRADHANUSH.

MS. SANJU SRIVASTAVA, H M



# WELCOME OF CLASS 1 STUDENTS IN KVS FAMILY PARENT ORIENTATION





# VIDYA PRAVESH

ONE OF THE SIGNIFICANT COMPONENTS OF  
NIPUN BHARAT MISSION TO ACHIEVE  
FOUNDATIONAL LITERACY AND NUMERACY



DEVELOPMENTAL GOAL 1- "  
CHILDREN MAINTAIN GOOD  
HEALTH AND WELL BEING "



DEVELOPMENTAL GOAL 2-  
"CHILDREN BECOME EFFECTIVE  
COMMUNICATORS "

DEVELOPMENTAL GOAL 3-  
" CHILDREN BECOME INVOLVED  
LEARNERS AND CONNECT WITH  
THEIR IMMEDIATE ENVIRONMENT "





# VIDYA PRAVESH ACTIVITIES





# VAN MAHOTSAV



**"FOREST FESTIVAL" - A special festival dedicated to forests.**

**Children prepared posters, slogans, nukkad naatak and took out a rally to understand the importance of forests. Also planted plants.**





# INVESTITURE CEREMONY

“A significant event that showcases the essence of Leadership and Responsibility”




“ Deserving students are honoured and entrusted with the authority to lead and represent their respective roles.”





# FUNDAY ACTIVITIES

PLAY, EXPLORE, DISCOVER THE  
POSSIBILITIES, PRODUCE JOY





# EARTH DAY ACTIVITIES TO DEMONSTRATE SUPPORT FOR ENVIRONMENTAL PROTECTION



THEME OF  
EARTH DAY  
2023

" INVEST  
IN OUR  
PLANET "





# LEARNING BY DOING



## EXPERIENTIAL LEARNING

STUDENTS FEEL  
EMPOWERED TO USE  
THEIR KNOWLEDGE AND  
SKILLS IN CONTEXTS  
THAT WILL AID IN THEIR  
FURTHER DEVELOPMENT





" TELL ME, AND I  
FORGET, TEACH  
ME, AND I MAY  
REMEMBER,  
INVOLVE ME AND  
I LEARN."




# PROFESSIONAL ENRICHMENT WORKSHOP FOR TEACHERS



"JUST KEEP ON SWIMMING."



ALWAYS REMEMBER THAT YOU ARE ABSOLUTELY UNIQUE . JUST LIKE EVERYONE ELSE."





पोषण माह १-३० सितम्बर  
पोषण माह उत्सव

" सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत "

किसी भी व्यक्ति को स्वस्थ रखने में पोषक तत्वों से भरपूर संतुलित आहार महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बिना स्वस्थ आहार लिए व्यक्ति कभी निरोगी और पूरी तरह स्वस्थ नहीं रह सकता है।



फल, सब्जी और अनाज का  
सेवन बढ़ायें,  
फ़ास्ट फूड से बचें और शरीर को  
स्वस्थ बनायें.



घर का आहार  
अमृत समान,  
यह स्वास्थ्य के  
लिए है वरदान.





**हिंदी पखवाड़ा** - १४ से २८ सितम्बर २०२३ **मेरा मान है हिन्दी, मेरी शान है हिन्दी**  
हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत प्राथमिक विभाग में बच्चों के लिए सुलेख, श्रुतलेख, काव्य पाठ, समाचार पत्र वाचन व लघु नाटिका प्रतियोगिताएं आयोजित की गयीं।



**संतुलित आहार**



**शिक्षा का अधिकार**



**बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ**



**मोबाइल फ्रोन के दुष्प्रभाव**



# OUR INITIATIVES

## Implementation of NEP 2020

1. Saturday as Funday which is bagless day . Block periods are provided to each class to strengthen different skills by organising skill based activities.
2. Preparation of English and Hindi skits to enhance conversation skills, confidence ,dramatization skills.
3. Paper craft work to Stimulate creativity and imagination.
4. Clay work activities to develop hand eye coordination, fine motor skills, creativity, self expression etc.
5. Organised field game to develop team spirit, discipline, leadership, and how to function in a structured environment.
6. Mass Singing and dancing activities foster creativity, expression, social skills, physical skills etc.

## MAJOR INITIATIVES IN NIPUN-FLN, VIDYAPRAVESH

- Inclusion of children's primary language in class room instruction.
- Print rich environment and learning aids for introducing language and numeracy.
- Use of worksheets and activities mentioned in VidyaPravesh manual.
- Following the targets of FLN age wise.
- Parent engagement activities.
- Continuous professional development of teachers.
- Designing fun ways of learning.
- Vocabulary skills.
- Interactive quizzes.
- Skill based approach.
- Peer learning.
- Group learning activities
- Ice breaking activities
- Conversational activities
- Writing games
- Regular assessment
- Informal assessment
- Fun day activities
- Monthly Parent- Teachers Meeting